



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 339]
No. 339]

नई दिल्ली, बुध्दतिवार, अगस्त 23, 1979/भाद्र 1, 1901
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 23, 1979/BHADRA 1, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1979

क्रा० प्रा० 480(अ)—कलकत्ता में मेट्रो रेलवे तथा उसमें सम्बद्ध कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भवन आदि अपेक्षित है।

केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भवन आदि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अपेक्षित हैं।

यह केन्द्र सरकार मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्य) अधिनियम 1978 (1978 का अधिनियम 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भवन आदि का अर्जन करने के अपने प्राण्य की एतद्वारा घोषणा करता है।

निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भवन आदि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के अन्दर अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत निर्धारित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना आक्षेप यदि हो, प्रस्तुत कर सकता है।

कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिए मेट्रो रेलवे और उसमें सम्बद्ध अन्य कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित भूमि, भवन आदि की अनुसूची।

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची सं० 9/1

तकशा संदर्भ		किस उद्देश्य के लिए भूमि अपेक्षित है	अपेक्षित भूमि के क्षेत्रफल विवरण और सीमा		
सेट	शीट		क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	विवरण	भूमि की सीमा
रेखा चित्र सं० एम०आर०सी०/डब्ल्यू/लैंड 265-79		मेट्रो रेलवे तथा उसमें सम्बद्ध कार्यों का निर्माण।	108.40 (0.0108 हेक्टेयर)	परिसर सं० 4/1 जीवन कृष्ण चोप रॉड, बेलगछिया की खाली भूमि का एक भाग।	उत्तर—95/3 बेलगछिया रोड दक्षिण—चिन्तपुर रेलवे यार्ड पूर्व—4/1 जीवन कृष्ण घोष रोड पर खपरैल की छत वाला कारखाना। पश्चिम—चिन्तपुर मार्गलिंग यार्ड कार्यालय (पूर्व रेलवे)।

[सं० 79/एम०डी०पी०/सी०/एस०ए०/18]

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 23rd August, 1979

S. O. 480(E)—Whereas the land, building, etc. mentioned herein in the schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the city of Calcutta,

And whereas the Central Government is satisfied that the land, building, etc. referred to in the schedule below are required for a public purpose.

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the land, building, etc. referred to in the schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railways (Construction of Works) Act 1978 (Act 33 of 1978).

Any person interested in the land, building etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, building, etc. which is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway.

CALCUTTA METROPOLITAN CITY

Land Schedule Number 9/1

Reference to Plan		Purpose for which the land etc. is required	Area, description and boundary of the land etc. which is required		
Set	Sheet		Area in Sq. M	Description	Boundary of the land.
	Drg. No. MRC/W/Land/ 265-79	Construction of Metro Railway and other works connected therewith.	108.40 (0.0108 Hectares)	A portion of vacant land of Premises No. 4/1, Jiban Krishna Ghosh Road, Belgachia.	North—95/3, Belgachia Road. South—Chitpore Railway Yard. East—Tile roof workshop on 4/1, Jiban Krishna Ghosh Road. West—Chitpore Marshalling Yard Office (E. Rly).

[No. 79/MTP/C/LA/18]

का०प्र० 481(अ)—कलकत्ता में मेट्रो रेलवे तथा उससे सम्बद्ध कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भवन आदि अपेक्षित हैं।

केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भवन आदि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अपेक्षित हैं।

अतः केन्द्र सरकार मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्य) अधिनियम 1978 (1978 का अधिनियम 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत प्रवक्त शक्तियों के अन्तर्गत निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भवन आदि का अधिग्रहण करने के अपने आशय की एतद्वारा घोषणा करती है।

निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भवन आदि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इत्कालीन दिवस के अन्दर अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत निर्धारित सभ्य प्राधिकारी के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर सकता है।

कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिए मेट्रो रेलवे और उससे सम्बद्ध अन्य कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित भूमि, भवन आदि की अनुसूची।

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची सं० 13/1

नक्शा संदर्भ		किस उद्देश्य के लिए भूमि अपेक्षित है	अपेक्षित भूमि का क्षेत्रफल विवरण और सीमा		
सेट	शीट		क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	विवरण	भूमि की सीमा
रेखा चित्र न० एम०प्र० 275-79	मेट्रो रेलवे तथा उससे सम्बद्ध अन्य कार्यों का निर्माण	64.50 वर्ग मी० (0.00645 हेक्टेयर)	26, भूपेन्द्र बोस एवेन्यू (भाग)	उत्तर—परिसर सं० 26 भूपेन्द्र बोस एवेन्यू का उत्तरी भाग।	दक्षिण—भूपेन्द्र बोस एवेन्यू (रोड) पूर्व—26 और 24 भूपेन्द्र बोस एवेन्यू के बीच का आम रास्ता। पश्चिम—30 भूपेन्द्र बोस एवेन्यू

[सं० 79/एम०टी०पी०/सी०/एम०ए०/19]

S. O. 481(E).—Whereas the land, building, etc. mentioned herein in the schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the city of Calcutta.

And whereas the Central Government is satisfied that the land, building, etc. referred to in the schedule below are required for a public purpose.

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the land, building, etc. referred to in the schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (Act 33 of 1978).

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, building, etc. which is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway :

CALCUTTA METROPOLITAN CITY

Land Schedule Number 13/1

Reference to Plan		Purpose for which the land etc. is required	Area, description and boundary of the land etc. which is required		
Set	Sheet		Area in Sq. M.	Description	Boundary of the land
	Drg. No. MRC/W/Land/ 275-79	Construction of Metro Railway and other works connected therewith.	64.50 Sqm. (.00645 Hectares)	26, Bhupendra Bose Avenue (Portion)	North—Northern part of premises No. 26, Bhupendra Bose Avenue. South—Bhupendra Bose Avenue (Road) East—Common passage between 26 and 24 Bhupendra Bose Avenue. West—30, Bhupendra Bose Avenue.

[No. 79/MTP/C/LA/19]

का० बा० 482(घ).—कलकत्ता में मेट्रो रेलवे तथा उससे सम्बन्धित कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भवन आदि अपेक्षित है।

केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भवन आदि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अपेक्षित हैं।

धतः केन्द्र सरकार मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्य) अधिनियम, 1978 (1978 का अधिनियम 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भवन आदि का अधिग्रहण करने के अपने प्राथम्य की एतद्द्वारा घोषणा करती है।

निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भवन आदि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के अन्दर अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत निर्धारित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना आक्षेप यदि हो, प्रस्तुत कर सकता है।

कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिए मेट्रो रेलवे और उससे सम्बन्धित अन्य कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित भूमि, भवन आदि की अनुसूची।

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची सं० 13/2

नक्शा संख्या		किस उद्देश्य के लिए भूमि अपेक्षित है	अपेक्षित भूमि का क्षेत्रफल विवरण और सीमा		
सेट	शीट		क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	विवरण	भूमि की सीमा
रेखा चित्र सं० एम०आर० मो०/नक्शा/वि०/275-79		मेट्रो रेलवे तथा उससे सम्बन्धित अन्य कार्यों का निर्माण	240.00 वर्ग मी० (.0240 हेक्टेयर)	30, भूपेन्द्र बोस एवेन्यू	उत्तर—30, भूपेन्द्र बोस एवेन्यू और 28, भूपेन्द्र बोस एवेन्यू के बीच का आम रास्ता। दक्षिण—भूपेन्द्र बोस एवेन्यू (रोड) पूर्व—26, भूपेन्द्र बोस एवेन्यू (रोड) पश्चिम—32, भूपेन्द्र बोस एवेन्यू

[सं० 79/एम०टी०पी०/सी०/एल०ए०/20]

S. O. 482(E).—Whereas the land, building, etc. mentioned herein in the schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the city of Calcutta.

And whereas the Central Government is satisfied that the land, building, etc. referred to in the schedule below are required for a public purpose.

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the land, building, etc. referred to in the schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (Act 33 of 1978).

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, building, etc. which is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway :

CALCUTTA METROPOLITAN CITY

Land Schedule Number 13/2

Reference to Plan		Purpose for which the land etc. is required	Area, description and boundary of the land etc. which is required		
Set	Sheet		Area in Sq. M.	Description	Boundary of the land
	Drg. No. MRC/ W/Land/275-79	Construction of Metro Railway & other works connected therewith.	240.00 Sqm. (.0240 Hectre)	30, Bhupendra Bose Avenue.	North—Common passage between 30, Bhupendra Bose Avenue and 28, Bhupendra Bose Avenue. South—Bhupendra Bose Avenue (Road). East—26, Bhupendra Bose Avenue (Road). West—32, Bhupendra Bose Avenue.

[No. 79/MTP/C/LA/20]

का० धा० 483(अ).—कलकत्ता में मेट्रो रेलवे तथा उससे सम्बद्ध कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भवन आदि अपेक्षित है।

केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भवन आदि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अपेक्षित है।

अतः केन्द्र सरकार मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्य) अधिनियम, 1978 (1978 का अधिनियम 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भवन आदि का अर्जन करने के अपने आशय की एतद्वारा घोषणा करती है।

निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भवन आदि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दसवीं दिन के अन्तर अधिनियम की धारा 9(1) के अंतर्गत नियोजित सजम प्राधिकारी के समक्ष अपना आक्षेप यदि हों, प्रस्तुत कर सकता है।

कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिए मेट्रो रेलवे और उससे सम्बद्ध अन्य कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित भूमि, भवन आदि की अनुसूची।

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची सं० 13/3

नक्शा-संदर्भ		किस उद्देश्य के लिए भूमि अपेक्षित है	अपेक्षित भूमि का क्षेत्रफल, विवरण और सीमा		
सेट	शीट		क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	विवरण	भूमि की सीमा
रेखा चित्र सं० एम०आर० सी०/डब्ल्यू/लैंड/275-79		मेट्रो रेलवे तथा उससे सम्बद्ध अन्य कार्यों का निर्माण।	575.00 वर्ग मी० (.0575 हेक्टर-अर)	28, भूपेन्द्र बोस एवेन्यू	उत्तर—भूपेन्द्र बोस एवेन्यू (रोड) दक्षिण—3-ए और 3बी०, चौधरी लेन पूर्व—27 भूपेन्द्र बोस एवेन्यू पश्चिम—चौधरी लेन (रोड)

[सं० 79/एम०टी०पी०सी०/एम०ए०/21]

S. O. 483(E).—Whereas the land, building, etc. mentioned herein in the schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the city of Calcutta,

And Whereas the Central Government is satisfied that the land, building, etc. referred to in the schedule below are required for a public purpose,

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the land, building, etc. referred to in the schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railways (Construction of Works) Act 1978 (Act 33 of 1978).

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, building, etc. which is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway :

CALCUTTA METROPOLITAN CITY

Land Schedule Number 13/3

Reference to Plan		Purpose for which the land etc. is required.	Area, description and boundary of the land etc. which is required.		
Set	Sheet		Area in Sq M.	Description	Boundary of the land.
	Drg. No. MRC/ W/Land/275-79	Construction of Metro Railway and other works connected therewith.	575.00 Sqm. (.0575 Hectares)	29, Bhupendra Bose Avenue.	North—Bhupendra Bose Avenue (Road) South—3A & CB, Chowdhury Lane. East—27, Bhupendra Bose Avenue. West—Chowdhury Lane (Road).

[No. 79/MTP/C/LA/21]

का० प्र० 484(ख).—कलकत्ता में मेट्रो रेलवे तथा उससे सम्बद्ध कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भवन आदि अपेक्षित है।

केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भवन आदि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अपेक्षित हैं।

अतः केन्द्र सरकार मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्य) अधिनियम 1978 (1978 का अधिनियम 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भवन आदि का अर्जन करने के अपने आशय की एतद्वारा घोषणा करता है।

निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भवन आदि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एकमास दिवस के अन्दर अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत निर्धारित मसम प्राधिकारी के समक्ष अपना आक्षेप यदि हो, प्रस्तुत कर सकता है।

कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिए मेट्रो रेलवे और उससे सम्बद्ध अन्य कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित भूमि, भवन आदि की अनुसूची।

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची सं० 13/4

नक्शा-संदर्भ		किस उद्देश्य के लिए भूमि अपेक्षित है	अपेक्षित भूमि का क्षेत्रफल विवरण और सीमा		
सेट	शीट		क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	विवरण	भूमि की सीमा
रेखा चित्र सं० डब्ल्यू/बी/275-79		मेट्रो रेलवे तथा उससे सम्बद्ध अन्य कार्यों का निर्माण	20.00 वर्ग मी० (.0020 हेक्टेयर)	70-ए भूपेन्द्र बोस एवेन्यू	उत्तर—19-बी, रामकान्त बोस स्ट्रीट दक्षिण—भूपेन्द्र बोस एवेन्यू पूर्व—रामकान्त बोस स्ट्रीट (रोड) पश्चिम—70-बी०, भूपेन्द्र बोस एवेन्यू

[सं० 79/एम०टी०पी०/सी०/एल०ए०/221]

S. O. 484(E).—Whereas the land, building, etc. mentioned herein in the schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the city of Calcutta,

And whereas the Central Government is satisfied that the land, building, etc. referred to in the schedule below are required for a public purpose,

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the land, building, etc. referred to in the schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railways (Construction of Works) Act 1978 (Act 33 of 1978).

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, building, etc. which is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway :

CALCUTTA METROPOLITAN CITY

Land Schedule Number 13/4

Reference to Plan		Purpose for which the land etc. is required	Area, description and boundary of the land etc. which is required		
Set	Sheet		Area in Sq. M.	Description	Boundary of the land
	Drg. No. MRC/W/Land/275-79.	Construction of Metro Railway and other works connected therewith.	30.00 Sqm. (.0020 Hectares)	70A, Bhupendra Bose Avenue.	North—19B, Ramkanta Bose Street. South—Bhupendra Bose Avenue. East—Ramkanta Bose Street (Road) West—70B, Bhupendra Bose Avenue.

[No. 79/MTP/C/LA/22]

का० प्रा० 485(अ)।—कलकत्ता में मेट्रो रेलवे तथा उससे सम्बन्धित कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भवन आदि अपेक्षित हैं, केन्द्र सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भवन आदि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अपेक्षित हैं,

अतः केन्द्र सरकार मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्य) अधिनियम 1978 (1978 का अधिनियम 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भवन आदि का अधिग्रहण करने के अपने प्रणय की पुष्टि द्वारा घोषणा करती है।

निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भवन आदि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना को प्रकाशन की तारीख से एकमात्र दिन के अन्तर अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत निर्धारित मर्यादित अधिकारी के समक्ष अपना प्रार्थन यदि हो, प्रस्तुत कर सकता है।

कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिए मेट्रो रेलवे और उससे सम्बन्धित अन्य कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित भूमि, भवन आदि की अनुसूची।

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची सं० 13/5

तकशा-संकेत		किस उद्देश्य के लिए भूमि अपेक्षित है	अपेक्षित भूमि का क्षेत्रफल विवरण और सीमा		
सेट	शीट		क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	विवरण	भूमि की सीमा
रेखा चिह्न सं० एम०आर० सी०/डब्ल्यू/सी०/275-79		मेट्रो रेलवे तथा उससे सम्बन्धित अन्य कार्यों का निर्माण।	24.00 वर्ग मी० (.0024 हेक्टेयर)	70-बी०, भूपेन्द्र बोस एवेन्यू	उत्तर—19 बी, रामकान्त बोस स्ट्रीट दक्षिण भूपेन्द्र बोस एवेन्यू (रोड) पूर्व—70-ए, भूपेन्द्र बोस एवेन्यू पश्चिम—70-सी०, भूपेन्द्र बोस एवेन्यू

[सं० 79/एम०टी०पी०/सी०/एम०ए०/23]

S. O. 485(E).—Whereas the land, building, etc. mentioned herein in the schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the city of Calcutta,

And whereas the Central Government is satisfied that the land, building, etc. referred to in the schedule below are required for a public purpose,

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the land, building, etc. referred to in the schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railways (Construction of Works) Act 1978 (Act 33 of 1978).

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, building, etc. which is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway :

CALCUTTA METROPOLITAN CITY

Land Schedule Number 13/5

Reference to Plan		Purpose for which the land etc. is required.	Area, description and boundary of the land etc. which is required		
Set	Sheet.		Area in Sq. M.	Description	Boundary of the land.
	Drg. No. MRC/W/ Land/275-79.	Construction of Metro Railway and other works connected therewith.	24.00 SQM (.0024 Hectre).	70B, Bhupendra Bose Avenue.	North—19B, Ram Kanta Bose Street. South—Bhupendra Bose Avenue (Road.) East—70A, Bhupendra Bose Avenue West—70C, Bhupendra Bose Avenue.

[No. 79/MTP/C/LA/23]

का० प्रा० 486(अ).—कलकत्ता में मेट्रो रेलवे तथा उससे सम्बद्ध कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भवन आदि उपेक्षित हैं।

केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भवन आदि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उपेक्षित हैं।

अतः केन्द्र सरकार मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्य) अधिनियम 1978 (1978 का अधिनियम 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भवन आदि का अर्जन करने के अपने प्रावय की पूर्तद्वारा घोषणा करती है।

निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भवन आदि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के अन्दर अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत निर्धारित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना आक्षेप यदि हो, प्रस्तुत कर सकता है।

कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिए मेट्रो रेलवे और उससे सम्बद्ध अन्य कार्यों के निर्माण के प्रयोजन के लिए उपेक्षित भूमि, भवन आदि की अनुसूची।

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची सं० 13/6

तक्या-संकेत		भूमि उद्देश्य के लिए भूमि उपेक्षित है	उपेक्षित भूमि का क्षेत्रफल विवरण और सीमा		
सेट	शीट		क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	विवरण	भूमि की सीमा
रक्षा वि० सं० एम० प्रार० सी/उ०/ए०/२७५-७९		मेट्रो रेलवे तथा उससे सम्बद्ध अन्य कार्यों का निर्माण।	130.00 वर्ग मी० (.0130 हेक्टेयर)	19-बी, रामकान्त बोस स्ट्रीट	उत्तर—रामकान्त बोस स्ट्रीट (रोड) दक्षिण—70-ए, और 70बी० भूपेन्द्र बोस एवेन्यू। पूर्व—रामकान्त बोस स्ट्रीट। पश्चिम—14-ए, रामकान्त बोस स्ट्रीट और 70-सी०, भूपेन्द्र बोस एवेन्यू।

(सं० 79/एम०टी०पी०/सी०/ए०/२४)

पी० एन० मोहिं

सचिव, रेलवे बोर्ड एवं पब्लिक संयुक्त सचिव, भारत सरकार

S. O. 486(E).—Whereas the land, building, etc. mentioned herein in the schedule below are required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith in the city of Calcutta,

And whereas the Central Government is satisfied that the land, building, etc. referred to in the schedule below are required for a public purpose,

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the land, building, etc. referred to in the schedule below, in terms of the powers conferred on them under Section 7(1) of the Metro Railways (Construction of Works) Act 1978 (Act 33 of 1978).

Any person interested in the land, building, etc. referred to in the Schedule below may within twenty-one days from the date of publication of this notification put up objection, if any, before the Competent Authority as prescribed under Section 9(1) of the Act.

Schedule showing the land, building, etc. which is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway :

CALCUTTA METROPOLITAN CITY

Land Schedule Number 13/6

Reference to Plan		Purpose for which the land etc. is required.	Area, description and boundary of the land etc. which is required		
Set	Sheet.		Area in Sq. M.	Description	Boundary of the land
Drg. No. MRC/ W/Land/275-79.		Construction of Metro Railway and other works connected therewith.	130.00 SQM (.0130 Hectare)	19B, Ramkanta Bose Street.	North—Ram Kanta Bose Street (Road). South—70A and 70B, Bhupendra Bose Avenue. East—Ram Kanta Bose Street. West—19A, Ramkanta Bose Street and 70C, Bhupendra Bose Avenue.

[No. 79/MTP/C/LA/24]

P. N. MOHILE

Secy., Railway Board and Ex-officio Jt. Secy. to the Govt. of India.